

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 443]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 नवम्बर 2015—कार्तिक 15, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 6 नवम्बर 2015 (कार्तिक 15, 1937)

क्र. 24422-वि.स.-विधान-2015.—राज्यपाल महोदय का निम्नलिखित आदेश दिनांक 6 नवम्बर 2015 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“संविधान के अनुच्छेद 174 के खण्ड (2) के उपखण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, एतद्वारा,
इस राज्य की विधान सभा का सत्रावसान करता हूँ।

भोपाल :
दिनांक 6 नवम्बर, 2015

राम नरेश यादव
राज्यपाल,
मध्यप्रदेश.”.

भगवान्देव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.